



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2006/कार्तिक 23, 1928

No. 547]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2006/KARTIKA 23, 1928

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2006

New Delhi, the 14th November, 2006

No. 24/2006-Central Excise (N.T.)

सं. 24/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 113 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 91 के सामने, स्तंभ (3) में, शब्द "निम्नलिखित माल" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित माल, ऑटोमोबाइल के लैंप को छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/148/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 113 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006, द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 16/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 11 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 415(अ), तारीख 11 जुलाई, 2006 के तहत संशोधित किए गए थे।

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006, G.S.R. 113(E), dated the 1st March, 2006, namely :—

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 91, in column (3), for the words "The following goods", the words "The following goods, other than lamps for automobiles" shall be substituted.

[F.No. 354/148/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 2/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006, was published vide number G.S.R. 113(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended by notification No. 16/2006-Central Excise (N.T.), dated the 11th July, 2006, G.S.R. 415(E), dated the 11th July, 2006.